



मुख्य अपडेट

पेज 3

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आईटीओ सिथ शहीदी पार्क में आजादी का अमृत महोसूल पार्क का शिलान्यास किया

पेज 5

अनुसूचित जाति के छात्रों, महिलाओं की बड़ी मददगार है अभ्युदय
योजना : ह्वेलकर

पेज 7

तालिवानियों की कूरता बरकरार; युवक की गोती मारकर की हत्या, फिर बाजार में लटका दिया शब

वर्ष : 12

अंक : 08

पृष्ठ : 08

नई दिल्ली

दिवांग 24 जूलाई 2022

मूल्य : 1.50/-

RNI No .DELHIN/2011/38334

गौरवशाली भारत

नई दिल्ली से प्रकाशित

मुख्य अपडेट

पेज 3

दिल्ली के उपराज्यपाल ने आईटीओ सिथ शहीदी पार्क में आजादी का अमृत महोसूल पार्क का शिलान्यास किया

पेज 5


अनुसूचित जाति के छात्रों, महिलाओं की बड़ी मददगार है अभ्युदय
योजना : ह्वेलकर

पेज 7

तालिवानियों की कूरता बरकरार; युवक की गोती मारकर की हत्या, फिर बाजार में लटका दिया शब

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महिला से गैंगरेप

रेलवे के 4 कर्मचारी अरेस्ट, प्लॉटफॉर्म के ट्रेन लाइटिंग रूम में दिया गारदात को अंजाम



नई दिल्ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक महिला (30 साल) के साथ गैंगरेप के मामले में रेलवे के 4 कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया।

पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी

रेलवे के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हैं। उनमें से दो ने गुरुवार रात स्टेटफॉर्म पर बने ट्रेन लाइटिंग रूम में रेप की बाबत को अंजाम दिया।

इस दौरान दो आरोपी कमरे के बाहर

रेलवे में नौकरी दिलाने के बाबत किया दुकर्ण महिला ने पुलिस को बताया कि वह हरियाणा के फेरीदाबाद की रहने वाली है। वह दो साल पहले अपने पति से अलग हुई थीं और नौकरी की तलाश में थीं। वह एक दोस्त के जरिए स्टेशन से मिली थीं, जिसने उसे रेलवे में नौकरी दिलाने का बाबत किया था। गुरुवार को स्टेशन से उसे अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में बुलाया था। शाम 10.30 बजे कीर्ती नगर मेट्रो स्टेशन पर महिला स्टेशन से मिली। इसके बाद वह उसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन ले गया जहाँ बाकी तीन आरोपी भी आ गए। इसके बाद ट्रेन लाइटिंग रूम में दो आरोपियों ने महिला के साथ रेप किया। पुलिस ने दो घंटे के अंदर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।

रेलवे के तौर पर खड़े रहे। आरोपियों की पहचान सतीश कुमार (35 साल), बिनोद कुमार (38 साल), मंगल चंद (33 साल) और जगदीश चंद (37 साल) के तौर पर हुई है।

लोगों की मुरिकलें बढ़ा रहा मानसून

बिजली गिराने से बिहार ने 10 और यूपी में 6 की मौत, गुजरात के 6 शहरों में ऐड अलर्ट



बारिश से राज्य में यानी का लगभग

आधा कोटा गोती हो गया। गुरुवार की रात से

राज्य के कई हिस्तेह में तेज बाबत का साथ बारिश शुरू हुई है।

इस तेज बारिश के बाद अहमदाबाद समेत राज्य में 23 से 27 जुलाई के बीच

शार्ट न्यूज़

प्रतिबधित चीनी 'मांजा' बेचने के आरोप में
जम्मू ने दो गिरफ्तार

जम्पू पुलिस ने शनिवार को शहर के बाहरी हिस्से अखूरू इलाके में दो लोगों को गिरफ्तार कर चीनी 'मांजा' से पतंग उड़ाने वाले गिरोह का भड़ाफोड़ किया। अखूरू थाना के थाना प्रभारी हिलाल अजहर ने बताया कि जम्पू के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) के निर्देश के बाद चीनी मांजा (गटू) बेचने वालों के खिलाफ अधिभयन में पुलिस ने शनिवार को अखूरू तस्वील के लावर सुगंगल के विजय कुमार एवं उसी तहसील के आय समाज गली के निवासी राजेश शर्मा नाम के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 142 बंडल चाइनी मांजा (गटू) भी कबाश किया गया। पुलिस ने मामला लड़ कर जाच शुरू कर दिया है। उड़ाने वाला का जम्पू के उपायुक्त ने एक आदेश जारी किया है जिसमें चीनी मांजा की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है वर्षांकी धांग लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहा है। जिसका इस्तेमाल पतंग उड़ाने के लिए किया जा रहा है। अखूरू के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी वर्षांक जिदियाल ने जाता है कि चीनी मांजा की उपयोग, खोरी द या बिक्री नहीं करने और आइस के बजाय पारंपरिक पतंगबाजी के धांग का उपयोग करने की अपील की है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदियों व झीलों में जल्द शुरू होगी फिल्म एंगलिंग

नैनीताल। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नैनीताल जिले में झीलों व नदियों में जल्द मरम्भ आखेंट (फिल्म एंगलिंग) खेल को प्रारंभ किया जाएगा। नैनीताल के जिलाधिकारी धीरज सिंह गवर्नर ने शनिवार को यह जानकारी दी। श्री गवर्नर नैनीताल झीलों व नदियों संरक्षण के तहत शनिवार के चलाये जा रहे अधिभयन के दोरान बोले थे। उड़ानों इस मौके पर लायरिस्टों की विभाग के सहयोग से नैनी झील में मछली की महाशीर प्रजाति की लागभाग दस हजार अंगुलियां प्राप्तिहाति कीं। उड़ानों आगे कहा कि नैनी झील के पारिस्थितिकी तंत्र को सुदूर करने वाला महाशीर के संरक्षण व संवर्धन के लिए यह कदम उठाया गया है। उड़ानों के लिए विभाग ने नैनी झीलों को डाला जायेगा। भीमताल शीतलजल मार्गिकारी अनुसंधान के दोरान बोले थे। उड़ानों इस मौके पर लायरिस्टों की विभाग के सहयोग से नैनी झील में मछली की महाशीर प्रजाति की लागभाग दस हजार अंगुलियां प्राप्तिहाति कीं। उड़ानों ने बताया कि बाद कार्यक्रम लाखों से अरुणांचल प्रदेश तक चलाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश महाशीर मछलियों को बढ़ावा देना है।

विमला को पहली महिला जेल आईजी बनने पर रक्षु ने दी थुमकानाएं

देहरादून। भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी विमला गुंजाल को उत्तराखण्ड कारगार की प्रथम महिला महानियोक्षक (आईजी) नियुक्त होने पर विधानसभा अध्यक्ष (स्पीकर) क्रृतु खंडौ भूषण ने बधाई एवं सुशब्दकामान दी है। शनिवार सुबह श्रीमती गुंजाल ने श्रीमती भूषण से देहरादून स्थित उनके शासकीय आवास पर शिशुचार घेंट की। इस दौरान, अध्यक्ष ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विभिन्न विवाहों पर आजीजी से बातचीत की। उड़ानों के लिए विभाग महिलाओं के प्रति होने वाले आरोपियों को गोकथम और घटित अपराधों के लिए नियमित अवरुद्ध हुए। श्रीमती भूषण ने विशेष तौर पर प्रदेश में युवाओं में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति को रोकथाम एवं नशे की सौदामों पर लागम कसने के लिए पुलिस को ठोस कदम उड़ाए जाने की बात कही।

तेलंगाना भारी बारिश : मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को हाई अलर्ट पर रहने का दिया निर्देश

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्य सचिव सेमेंज चुम्बक को राज्य में आगे एक-दो दिनों में भारी बारिश होने जानकारी दी है। मुख्य सचिव ने वरिष्ठ अधिकारियों और जिला कलेक्टरों से टेलोक्स केरक बाबत की अवधारणा एवं उड़ानों पर राज्य भर में भारी और अतिवृष्टि होने के बाबत की बात कही।

दिल्ली की तिहाड़ जेल में यासीन मलिक ने शुरू की भूख हड़ताल, कहा - केस की सही जांच नहीं हो रही है

घघर नदी ने जलस्तर बढ़ा, प्रशासन अलर्ट

सिरसा। हरियाणा के पंचकुला जिले से सटी शिवालिक की पहाड़ियों, पंजाब व हरियाणा के अन्य हिस्सों में ठर-ठर कर हो रही बारिश के बाद घघर नदी में जलस्तर बढ़ गया है। करीब 421 कि.लोमीटर लंबी ही नदी का कुल केंचेंट एरिया 21,580 वर्ग किलोमीटर है। सिसास के आउट-हैंड पर शनिवार को 20 दूसरे की बूस्टर खूसेक पानी की बाबत अंतिक किया गया। अगले 24 घंटों में आउट-हैंड में करीब पांच बूस्टर खूसेक पानी और अन्य की संधारणा की जाएगी। ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अतिरिक्त हो जाएगा। यह बारिश एवं नशे की विभागीय विवाहों पर लागम कसने के लिए पुलिस को ठोस कदम उड़ाए जाने की बात कही।

गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी के पोस्टर का किया विमोचन

जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जंबूरी के पोस्टर का आज यहां विमोचन किया। श्री गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर इसका आजीजी के बाबत की विवाहों से अवगत कराया। राष्ट्रीय जंबूरी आजीजी वर्षा राव से दस जानवरी तक पाली जिले के रोटोवर में आजीजी की जागीरी विमोचन को देने वाले पुरुषों की जांच की जिला जांचनी की मेजबानी मिली है। इस सात दिवारी जंबूरी में स्टेट ड्राइव, पायानियर्स प्रोजेक्ट, एडवेंचर वैली, रसोल विलेज डबलप्लैट, ईंटीग्रेशन गेम्स, मार्च पार्ट, कलर पार्टी, लोक नृत्य, शारीरिक प्रदर्शन, राज्य दिवस प्रदर्शनी, बैंड प्रदर्शन, रॉक क्लाइंबिंग, पैरेसलिंग एवं वाटर एक्टिविटीज़। जैसी कई प्रतिवर्गिताओं का आजीजी जिले किया जाएगा।

केंद्र सरकार के प्रयासों से अनीर और गरीब के बीच की कम हुई खाई : छौथी

भूतपुर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नंदें मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार विकास को देश के कोने कोने तक पहुंचाने में सक्षम रही है और इस दौरान अमीरी और गरीब के बीच की खाई कम हुई है। श्री चौधरी आज अपने भूतपुर के अग्रभूमि के लिए विकास के दौरान बृज इंस्ट्रुमेंट एवं मसाला कैफ्ट्री अग्रभूमि प्राइवेट के बृज के स्थानांतरण की संधी की जाएगी। उड़ानों के लिए विकास के बीच संधी की जाएगी। अगले 10 दिनों में जलस्तर बढ़ाव के बाबत की अवधारणा एवं उड़ानों पर राज्य भर में भारी और अतिवृष्टि होने के बाबत की बात कही।

तमिलनाडु : अन्नाद्रमुक के कार्यालय में तोड़फोड़

अहम दस्तावेज और सानाना गायब; पनीरसेल्वम के खिलाफ शिकायत

चेन्नई। तमिलनाडु में विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने शनिवार को आरोप लगाया कि पार्टी से निष्कासित नेता और पर्यावरण सेल्वम के प्रति निष्प रखने वालों ने 11 जुलाई को पार्टी का कार्यालय में तोड़फोड़ के बाबत आजीजी से बाहरी विवाहों को खाली लगातार तथा विवाहों को लूट लिया। यह घटना उस वक्त हुई जब पनीरसेल्वम और पार्टी के अंतरिम महासचिव के अंतरिम विवाहों के बाबत आजीजी की विवाहों के बाबत आयोग के लिए विवाहों की जीवन को खतरे में डाल रहा है। जिसका इस्तेमाल पतंग उड़ानों के लिए किया जा रहा है। अखूरू के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी वर्षांक जिदियाल ने जाता है कि चीनी मांजा की उपयोग, खोरी द या बिक्री नहीं करने और आइस के बजाय पारंपरिक पतंगबाजी के धांग का उपयोग करने की अपील की है।



विवाहों के बाबत आजीजी की विवाहों को लूट लिया गया है। अखूरू इस विवाहों के बाबत आजीजी की विवाहों को लूट लिया गया है। उड़ानों के लिए विवाहों की जीवन को खतरे में डाल रहा है। जिसका इस्तेमाल पतंग उड़ानों के लिए किया जा रहा है। अखूरू के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी वर्षांक जिदियाल ने जाता है कि चीनी मांजा की उपयोग, खोरी द या बिक्री नहीं करने और आइस के बजाय पारंपरिक पतंगबाजी के धांग का उपयोग करने की अपील की है।

विवाहों के बाबत आजीजी की विवाहों को लूट लिया गया है। अखूरू इस विवाहों के बाबत आजीजी की विवाहों को लूट लिया गया है। उड़ानों के लिए विवाहों की जीवन को खतरे में डाल रहा है। जिसका इस्तेमाल पतंग उड़ानों के लिए किया जा रहा है। अखूरू के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी वर्षांक जिदियाल ने जाता है कि चीनी मांजा की उपयोग, खोरी द या बिक्री नहीं करने और आइस के बजाय पारंपरिक पतंगबाजी के धांग का उपयोग करने की अपील की है।

विवाहों के बाबत आजीजी की विवाहों को लूट लिया गया है। अखूरू इस विवाहों के बाबत आजीजी की विवाहों को लूट लिया गया है। उड़ानों के लिए विवाहों की जीवन को खतरे में डाल रहा है। जिसका इस्तेमाल पतंग उड़ानों के लिए किया जा रहा है। अखूरू के अनुमंडलीय पुलिस अधिकारी वर्षांक जिदियाल ने जाता है कि चीनी मांजा की उपयोग, खोरी द या बिक्री नहीं करने और आइस के बजाय पारंपरिक पतंगबाजी के धांग का उपयोग करने की अपील की है।

विवाहों के बाबत आजीजी की विवाहों को लूट लिया गया है। अखूरू इस विवाहों के

संपादकीय



कैसे भारत कमाए ज्यादा डॉलर, रखे रुपए को मजबूत

डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए का लगातार अब मूँचन होता और देश के हजारों युवाओं के विदेशों में पढ़ने के लिए जाने के आपसी संबंधों को समझना जरूरी है। यकीन मानिए कि इनके बाहर जाने से भी देश की अमूल्य विदेशी मुद्रा का खजाना घटता है। जब यह होते हैं कि जब ये देश से बाहर जाते हैं तब इन्हें बैंकों से डॉलर के विदेशी शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेना होता है। अब बात चालू साल की करें तो मात्र मीठे तक कीरीब 1.33 लाख भारतीय विद्यार्थी दुनिया के अलग-अलग देशों में पढ़ने के लिए निकल गए। अज़कल अप टिली, मुंबई, बैगलुरु और उन वहाँ अंडुओं में विदेशों के लिए जाने वाले नौजवानों को खूब देख सकते हैं जहाँ से विदेशों के लिए विमान उड़ाने भरती हैं।

संसद में हाल ही में बताया गया कि इस साल उच्च शिक्षा ग्रन्थ करने के लिए देश से 1.33 लाख से कुछ बढ़े से बाहर चले गए। अगर बात साल 2021 की तो तब यह आकड़ा 4.44 लाख के असाधा था। जिक्र किए साल 2020 में 2.59 युवा देश से बाहर गए थे पढ़ने के लिए। भारत से साल 2018-19 के दौरान 6.20 लाख विद्यार्थी पढ़ने के लिए देश से बाहर गए। साल 2017-18 में 7.86 लाख विद्यार्थी देश से बाहर गए थे।

भारतीय युवाओं की पहली पसंद तो अमेरिका तथा कनाडा के शिक्षण संस्थान ही हैं। पर वे दूसरे अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाते हैं। अभी कुछ माह पहले हमने देखा था जहाँ-सूक्तें जंग के द्वारा भारतीय वहाँ फंस गए थे। ये वहाँ कुछ अराजक तत्व रात को किसी काम पे जाए हैं। इसका कारण कर्वाई ही नहीं है। इसका कारण कर्वाई के साथ ही जागरूकता लाने की ललक है। किसी काम के प्रति निश्चय है। सिर्फ कामों में होती चली आ रही कार्वाई की जगह हकीकत में जीमीन पर उत्तराने का उत्तरालापन है। उह ललक, यह ग्रास्ट्रोवाद, समर्पण का भाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दी है, जो देश के सामने एक नंजीर है। उसका प्रदेश में आगे बढ़ने के लिए सत्य योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री के हर मानो भाव को पढ़ लेते हैं और जीवित-कर्तव्य कदम उठाने में सबसे आगे रहते हैं।

एक बदल हमारा एक्सपोर्ट घर रहा है और दूसरी तरफ हमारा विदेशी मुद्रा का खजाना भी तेजी से खाली हो रहा है। इसके दो बड़े कारण हैं—पहला, कच्चे तेल का आयात। दूसरा, युवाओं का विदेशों में पढ़ने के लिए जाना। अब हमारे सामने विकल्प बना है। देखिए कच्चे तेल के भाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पर हम विदेशों का रख बरने के लिए जाएं। इनकी बजह से देश को हर साल अब भी रुपए की देशों के लिए जाएं।

इसी बीच, हमे चाहें तो यह संतोष कर सकते हैं कि भारत को आई एसी सेक्टर में विदेश से भारतीय-भारतीय विदेशी मुद्रा हासिल हो जाती है। भारत के नियंत्रित और जीडीपी में आईटी सेक्टर का योगदान 40 फीसदी की करीब है। सर्विस एक्सपोर्ट में 50 फीसदी योगदान केवल आईटी सेक्टर का है। इधर कुछ छात्रों के लिए जून-जुलाई के अंतराल के अन्दर, भारत को सूलभ करने में जीवित हो जाता है। उसके बाद यह अपने अधिकारों के संबंध में जान सकते हैं।

वह सहम गयी और चलते-चलते ही 1090 पर फोन मिलाया। उसके फोन मिलाते ही अराजक तत्व उसका प्रणाली करते हुए गती में रफ्तार करते हुए गती में आगे पांच मिनट के अंदर, पुलिस वाले बनने के सामने थे। उनमें योगी सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसी त्वरित गति मैंने पहले कभी नहीं देखी थी।

अराजकतत्वों के प्रति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़क रुख का सुनायी आयी थी। जो देश के सामने भी नंबर मिला दिया और खुद ही उस त्वरित गति को देख ली। यह सुनकर हमें भी तसकी हुई, महान संत ने महिलाओं के लिए जो योग्यता की है, प्रशासन की जो सरकार बनाने वाली तरीका है। इसकी तारीफ तो की ही जानी चाही।



स्त्री शिंह

कल एक बहन मेरे घर आयी थी। अभी कुछ दिन पूर्वी को वह हकीकत बताने लगी। वह लखनऊ के बाहर रात को किसी काम से स्कूटी से जा रही थी। तभी कुछ अराजक तत्व आकर्षित गति को लिए जाएं। इनकी बजह से चलने लगे।

इसको यूं समझाए कि किसी मुद्रे पर कानून बना देने मात्र से समस्या का खजाना भी तेजी से खाली हो जाता है। इसके दो बड़े कारण हैं—पहला, कच्चे तेल का आयात। दूसरा, युवाओं का विदेशों में पढ़ने के लिए जाना। अब हमारे सामने विकल्प बना है। देखिए कच्चे तेल के भाव पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। पर हम विदेशों का रख बरने के लिए जाएं।

यह स्थानीय युवाओं की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को सन 2021 के दौरान विदेशों में आगे बढ़ने के लिए जाना। अब हमारे सामने विकल्प बना है। इसकी तारीफ तो की ही जानी चाही।

यह हकीकत सिर्फ उस बहन के

साथ ही नहीं देखने को मिली, यह हर दिन देखने को मिलता, जिससे महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास

बढ़ता है।

इसका कारण सिर्फ कड़ी कर्वाई ही ही नहीं है। इसका कारण कर्वाई के साथ ही जागरूकता लाने की ललक है। किसी काम के प्रति निश्चय है। सिर्फ कामों में होती चली आ रही कार्वाई की जगह हकीकत नुकसान के बारे में सोचे बिना मुस्लिम बहनों के साथ अन्यथा में प्रचारित करना, राजनीतिक नुकसान के बारे में सोचे बिना मुस्लिम बहनों के लिए नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

प्रधानमंत्री द्वारा किये जा रहे मार्गदर्शन का अक्षरशंख पालन करने के लिए महान संत, राष्ट्र व गण्य के लिए जीवन को समर्पित करने वाले योगी आदित्यनाथ को हर मानो भाव को पढ़ लेते हैं और जीवित-कर्तव्य कदम उठाने में जीमीन पर उत्तराने का उत्तरालापन है। उह ललक, यह ग्रास्ट्रोवाद, समर्पण का भाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इसका प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जैसे किसी प्रधानमंत्री के बात थी।

उह ललक पर उत्तरकर

इस

शार्ट न्यूज़

न्यूज़लैंड ने आयरलैंड को किया बलीन स्थीप

बेलफास्ट। न्यूज़लैंड ने ग्लैन फिलिप्स (56) और डेरिल मिशेल (48) की शानदार पारियों की बदलत आयरलैंड को तीसरे टी20 मैच में छह विकेट से हाराकर तीन मैचों की श्रेष्ठता को 3-0 से जीत लिया है। आयरलैंड ने शुक्रवार के मैच में टीस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए न्यूज़लैंड के समाने 175 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे न्यूज़लैंड ने 19 ओवरों में ही हासिल कर लिया। आयरलैंड की ओर से सलामी बल्लेबाज़ पॉल स्टर्लिंग ने सर्वाधिक 40 रन बनाये। 29 गेंदों की अपनी पारी में उन्होंने तीन चौके और तीन छके लगाये। इसके अलावा लोकांन टकर ने 28(19) और हीरे टेक्टर ने 23(20) रन बनाये। अंत में मार्क एडेंयर ने 15 गेंदों पर दो चौके और चार छकों की मदद से 37 रन की ताबड़ता दाता। और अवर ने 17 ओवर में 174 रन तक पहुंचा चाचा। न्यूज़लैंड की ओर से इसी सोन्हे ने चार ओवर में दो विकेट लेकर 27 रन दिये जबकि ब्लेयर किटनर ने दो विकेट के बदले चार ओवर में 35 रन दिये। इसके अलावा मिशेल और जेकेब डफ़ी को भी एक-एक विकेट प्राप्त हुआ।

नॉर्थर्स्ट बने प्रथम-श्रेणी क्रिकेट में 400

बनाने वाले 11वें खिलाड़ी

लेटर। इंडीडे के ग्लैमोर्स काउंटी कलवत के बल्लेबाज़ सेम नॉर्थर्स्ट शनिवार को काउंटी चैम्पियनशिप में नाबाद 410 रन की पारी खेलकर इस शताब्दी में एक प्रथम-श्रेणी पारी में 400 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज़ बन गये। नॉर्थर्स्ट ने लेस्टरशर के खिलाफ़ 450 गेंदों में 410 रन की नाबाद पारी खेली, जिसकी बल्लेत उनकी टीम ने बहली पारी में 795 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। नॉर्थर्स्ट वेस्ट इंडीज़ के दिग्गज बल्लेबाज़ ब्राउन लारा के 501 नाबाद के प्रथम-श्रेणी रिकॉर्ड के तो ताने के प्रत्यक्ष दातार थे, लेकिन उनके काशन डेविड लॉयड ने चौथी दिन पर पारी 795/5 पर घोषित किया। यह प्रथम-श्रेणी क्रिकेट का नॉवां बल्लेबाज़ कर्गेंगी जबकि महिला टीम में 162 दीमें एक दूसरे का समान करेंगी।

15 वर्षीय की आयु में महिला रेटिंग

चेन्नई। पूर्व महिला विश्व चैम्पियन

सुजन पोल्टर ने चेन्नई में होने वाले 44वें शताब्दी ओलंपियाड से पहले बदली स्थानियों के बीच कहा है कि भारत अपने खिलाड़ियों की बदली क्षमताओं की बदौलत आयोजन के छह मैच में तीन पदक जीत सकता है।

चेन्नई में 28 जुलाई से शुरू होने वाले ओलंपियाड में रिकॉर्ड 187 देशों ने हिस्से लिया है। ओपन रणनीति में सर्वाधिक 18 ओवर में 174 रन तक पहुंचा चाचा। न्यूज़लैंड की ओर से इसी सोन्हे ने चार ओवर में दो विकेट लेकर 27 रन दिये जबकि ब्लेयर किटनर ने दो विकेट के बदले चार ओवर में 35 रन दिये।

इसके अलावा लोकांन टकर ने 28(19) और हीरे टेक्टर ने 23(20) रन बनाये। अंत में मार्क एडेंयर ने 15 गेंदों पर दो चौके और चार छकों की मदद से 37 रन की ताबड़ता दाता। और अवर में 174 रन तक पहुंचा चाचा। न्यूज़लैंड की ओर से इसी सोन्हे ने चार ओवर में दो विकेट लेकर 27 रन दिये जबकि ब्लेयर किटनर ने दो विकेट के बदले चार ओवर में 35 रन दिये।

15 वर्षीय की आयु में महिला रेटिंग

लिस्ट के शीर्ष पर पहुंचने वाली सुजन ने कहा, भारतीय महिला टीम के पास रूस और चीन की टीमों की अनुपस्थिति में सर्वाधिक जीतों का सर्वश्रेष्ठ मौका है।

कोरेन हम्पी, द्वांगवाली हरिका, आर वैशाली, तानिया सचेदेव और भक्ति कुलकर्णी की भारतीय महिला टीम पहली बार शीर्ष वरीयता प्राप्त है और संयोग से वे महिला वर्ग में भारत के लिए पहला पदक जीतने का प्रयास करेंगी।

12 ओलंपियाड पदक (पांच

स्वर्ण, चार रजत और तीन कांस्य)

वेस्टर्न ओलंपियाड के छह में से तीन पदक जीत सकता है भारत : पूर्व विश्व चैम्पियन पोल्गर

वेस्टर्न सो और सेम शैक्कलैंड थे, और उन्होंने इससे

पहले 2013 में विश्वाशन आनंद और डोमिनेंज की उपस्थिति ने बीच चेन्नई में खेले दीप की अतिरिक्त मजबूती किया है।

सुजन का मानना है कि यदि

अमेरिका सर्वाधिक जीत भी ले तो भारत ए

टीम और भारत बी टीम रजत एवं

कांस्य पदक हासिल कर सकती है।

उड़खेतीय है कि शताब्दी ओलंपियाड का आयोजन

भारत में शताब्दी ओलंपियाड 2014 में

सर्वकालिक उच्च स्तर पर है और इस

ट्रोफी में आया था जहां उन्होंने कांस्य

पदक जीता था।

सुजन ने भारत में शताब्दी

ओलंपियाड के आयोजन को लेकर

अवसर प्रदान किया है।

उड़खेतीय चैम्पियनशिप पोल्गर

जीतने की प्रबल दावेदार है।

उड़खेतीय चैम्पियनशिप पोल्गर

जीतने की प्रबल दावेद

ये दोस्ती है
कमाल की!

बाघ के बच्चे के साथ अंजना

अमेरिका के एक अभ्यारण्य में रहने वाली चिम्पैंजी है अंजना। वह इतनी दयालु है कि उसने बहुत से जानवरों के बहुत से अनाथ बच्चों को अपनाया है। अब वह मां की तरह एक बाघ के बच्चे की देखरेख कर रही है और उसकी अठखेलियों में खुश भी हो रही है। वैसे चिम्पैंजी काफी बुद्धिमान और समझदार होते हैं और वे अपने साथ रहने वालों का भी ख्याल रखते हैं।

थेंबा का साथी एल्बर्ट



मां के मर जाने से नन्हा थेबा (हाथी) बहुत दुखी हुआ और कई दिनों तक इसका शोक मनाता रहा। दक्षिण अफ्रीका के एक अभ्यारण्य में लाए जाने के बाद भी उसने खाना-पीना छोड़ रखा था। इसी दौरान उसे एल्बर्ट नाम की भेड़ के रूप में एक अच्छा दोस्त मिला। जल्द ही दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। खेलने के साथ दोनों झापकियां भी साथ ही लेते। नए दोस्त ने इतनी खुशियां दी कि थेबा अपने दुख भूल गया और फिर से खाना-पीना शुरू कर दिया।

बालू-लियो और शेर खान की तिकड़ी



नाम का शर्व है। इन तीनों के साथ इनके मालिक ने बुरा सलँक किया था, जिस कारण बालू को चोट भी लग गई। इस मुश्किल की घड़ी में ये एक-दूसरे का सहारा बन गये और अब अमेरिका के एक अभ्यारण्य में ये अपना सारा वक्त साथ ही गुजारते हैं।

दुश्मन के भी दरेत बनो

अमित लगातार कोशिश करता था कि किसी भी तरह करण को नीचा दिखा सके और दूसरे बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ा सके। लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद करण अपनी पढ़ाई में और बेहतर होता जा रहा था। चाहे बात पढ़ाई की हो या खेल की, करण हर किसी में बाजी मारता और हर जगह उसकी खूब तारीफ होती। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो अमित को नीचा देखना पड़ा और वह बदल गया।

पड़ा और वह बदल गया।

बहुत पहले की बात है। एक गांव था राजनगर। वहां पर करण नाम का एक लड़का रहता था। वह लड़का स्वभाव का बहुत अच्छा था। पढ़ाई में भी होशियार था। वह बहुत आज्ञाकारी और अपने मां-बाप का कहना मानता था। स्कूल में वह ज्यादातर बच्चों की तुलना में होशियार था। स्वभाव से वह विनम्र था और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था। उसके स्कूल में चाहे उससे बड़े लड़के हों या फिर छोटे, सभी उसे पसंद करते थे। लेकिन इस कारण बहुत से लड़के करण से जलते भी थे। करण की ही विलास में एक लड़का पढ़ता था, जिसका नाम था अमित। अमित पढ़ाई में तेज नहीं था। उसका स्कूल में खेलने में बहुत मन लगता था। वह अपने माता-पिता की बात नहीं सुनता था और उनसे रुखे तरीके से बात करता था। अपनी विलास के लड़कों को वह चिढ़िया करता था। यहां तक कि करण को भी वह खूब परेशान करता था। वह लगातार कोशिश करता था कि किसी भी तरह करण को नीचा दिखा सके और दूसरे बच्चों के सामने उसकी खिल्ली उड़ा सके। लेकिन उसकी लाख कोशिशों

के बावजूद करण अपनी
पढ़ाई में और बेहतर
होता जा



હંસને વાલા કોફા

साथियों, क्या तुमने ऑस्ट्रेलिया के हंसने वाले कोका के बारे में सुना है? आजकल ऑस्ट्रेलिया में यह खूब चर्चित हो रहा है। हंसने वाले कोका का दरअसल राज यह है कि इसका मुँह इस तरह का बना होता है, मानो खुशी से हंस रहा हो। छोटे चूहे जैसा यह जानवर आजकल ऑस्ट्रेलिया में पर्यटकों के बीच खूब लोकप्रिय हो रहा है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह बेहद सेलफी फ्रेंडली जानवर है। इसके साथ सेल्फी आती भी बड़ी मस्त है। इसकी स्माइलिंग वाले जबड़े की बनावट के कारण कुछ समय पहले इसे दुनिया के सबसे खुश जानवर की उपाधि भी मिल चुकी है। कोका वैसे तो एक साथ रहना पसंद करते हैं। आमतौर पर ये परिचमी ऑस्ट्रेलिया के दलदली इलाकों और जगलों में रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस्ट आइलैंड पर ये खूब पाए जाते हैं।

एक है कैट आइलैंड


आओशिमा नामक द्वीप पर मछुआरों की दोस्त बनकर आई बिलियां अब संख्या में इतनी ज्यादा हो गई हैं कि जिधर नजर घमाओ, बिलियां ही बिलियां नजर

आती हैं। ये इतनी ज्यादा हो गई हैं कि यहां हर एक आदमी पर छह बिलियों का अनुपात बन गया है। बेचारे इस द्वीप के रहने वाले। हर वक्त उन्हें भगाते ही रहते हैं। कुछ उन्हें

उनकी जान की मुसीबत बन
गया है। दक्षिणी जापान के

गया ह। दाक्षण्य जापान के

— 10 —



ਦਾਖਿਕ ਕਾਰ੍ਬਨ ਕਾ ਤੋਡਾ ਰਿਕੱਡ

अगर इंटेलिजेंस
होने की बात
आती है, तो
सूचिक व्यूब्स
में महारात की
बात भी जल्द
उठती है।
आपको पता है
कि सूचिक
व्यूब्स क्या
होते हैं?

दौस्तों, तुम सभी ने आकार में चौकोर कई रंग-बिरंगे खानों वाला यह क्यूब कभी न कभी खेला जरूर होगा। उसे हल करना आमतौर पर लोगों के लिए बहुत कठिन होता है। इसीलिए उसे जो सही-सही खेल ले, वह बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। इस क्यूब को पसंद करने वालों में बहुत से ऐसे भी हैं, जो इसे सबसे जल्दी हल करने की प्रतियोगिता भी करते हैं। उन्हें 'स्पीड क्यूबर्स' के नाम से जाना जाता है। बहुत से लोग इसके लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि भारत के भागव नरसिम्हन। वह एक जाने-माने स्पीड क्यूबर हैं। उनके नाम रुबिक क्यूब के दो नेशनल रिकॉर्ड हैं और अब खबर है कि उन्होंने 5 रुबीस क्यूब का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। यह उन्होंने एक मिनट के अंदर हल कर दिया। यह काम उन्होंने केवल एक हाथ से ही कर दिखाया। वैसे भागव केवल 22 साल के हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेकर तुम भी रुबिक क्यूब्स को जल्द से जल्द हल करने का मुकाबला रख सकते हो। तुम्हें बहुत मज़ा आएगा।